



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 55]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 23, 2005/फाल्गुन 4, 1926

No. 55]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 23, 2005/PHALGUNA 4, 1926

संस्कृति मंत्रालय

(जेड सी सी डेस्क)

संकल्प

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2005

सं. एफ. 1-1/2005/जेड. सी.सी.—संगम ज्ञापन की धारा 4(1) और 1860 के सोसायटी अधिनियम XXI के अंतर्गत पंजीकृत उत्तर-मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र, इलाहाबाद के नियमों और विनियमों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री टी. वी. राजेश्वर को उत्तर-मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र, इलाहाबाद के अध्यक्ष के कार्यों का निर्वहन करने के लिए तत्काल प्रभाव से नामित करती है।

नीना रंजन, सचिव

MINISTRY OF CULTURE

(ZCC Desk)

RESOLUTION

New Delhi, the 21st February, 2005

F. No. 1-1/2005/ZCC.—In exercise of the powers conferred under Section 4(i) of the Memorandum of Association, and Rules and Regulation of North Central Zone Cultural Centre, Allahabad registered under Societies Act XXI of 1860 the Central Government hereby nominates with immediate effect Shri T. V. Rajeshwar, Governor of Uttar Pradesh to discharge the function of Chairman of the North Central Zone Cultural Centre, Allahabad.

NEENA RANJAN, Secy.